

ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate Industrial Area Patparganj, New Delhi- 110092

E-mail: md@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com

Phone No.: 011-49537949, Website: www.aceintegrated.com

CIN: L82990DL1997PLC088373

Ref.- AISL/STX/2024-25/24

To

Date: September 05, 2024

The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051 (Maharashtra)

Company Symbol: ACEINTEG

<u>Subject: - Intimation of Newspaper Advertisement for Notice of 27th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting facility.</u>

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that pursuant to the provision of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Newspaper Advertisement for Notice of 27th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting facility have been published in Financial Express (English Newspaper all edition) and Jansatta (Hindi Newspaper Delhi edition).

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement.

You are requested to kindly take the above information on your records and acknowledge the receipt of the same.

Yours Faithfully

For ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Rahul Chauhan

Landarde Massilla Magga, in Villa Problecti.

Service Vall March Systems Name Copera and
Annie Canada March Magga Union Problecti Sedadials Canada March Magga Union Problecti SedaCanada March Magga Union Problectic SedaLa Sonda March Magga Union Andrews Magga Union
La Sonda March Magga Union Andrews Magga Union
La Sonda March Magga Union Andrews
La Sonda March Magga Union
La Sonda Magga Union
La Son

RAHUL CHAUHAN

(Company Secretary & Compliance Officer)

Rajasthan State Mines & Minerals Limited (A Government of Rajasthan Enterprise), Corporate office-4, Meera Marg, Udaipur (Raj)- 313001 Phone - 0294-2428768, 2428763-67, Fax-0294-2428768, 2428739

Date - 04/09/2024 **NOTICE INVITING e-TENDER**

e-Nit No. 08/2024-25 UBN No. MML2425GLRC00110

NIT No. & Date

Description of Work Supply of HDPE Woven Open Mouth Type Inside Laminated Sacks to our SBU-PC, (RP), Jhamarkotra Mines. Approx Qty. As per tender, Bid Security (in Rs.) 5,60,000/-, Tender Document Fees (in Rs.) 1180/-

Other terms & conditions have been given in detailed tender for which please visit us at our website **www.rsmm.com** or **www.sppp.rajasthan.gov.in** or www.eproc.gov.in or DGM(MM) on above address.

Dy. General Manager (P&A) Raj.Samwad/C/24/4726

RADHIKA EXPORTS LIMITED

CIN: L51391WB1980PLC032991 Registered Office: 16, India Exchange Place, Kolkata- 700001 Tel. No.: 033 2230 3571 / 72; Email: office@blpasari.com,

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Website: www.radhikaexports.co.in

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, (the 'Act') read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) as amended from time to time, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Act and the rules made thereunder on account of COVID-19" along with the General Circular No 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No.33/2020 dated September 28 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08 2021, General Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 December 28, 2022 and General Circular No. 09/23 dated September 25 2023 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to September 30, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India Circular Nos. SEBI/HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/1: dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13 2022 and other applicable laws and Regulation 11 of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended from time to time, the Notice of the Postal Ballot has been sent on Wednesday, September 04 2024 to all the members whose names appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as on Friday, August 30, 2024 through electronic mail to all those members whose Email-ids are registered in the records of depository participants in compliance with the General Circulars, for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot (remote e-voting only), for the Special Resolution for obtaining consent for delisting of equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE" / "Stock Exchange") pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India Limited ('CDSL') to provide e-voting facilities to its members. The Company providing e-voting facilities to the Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date to cast their vote electronically through e-voting services provided by CDSL. The manner of remote e voting has been provided in detail in the Notice of the Postal Ballot Members are requested to note that the e-voting through Postal Ballot will open or

Thursday, September 05, 2024 at 9:00 A.M. and will close on Friday, October 04

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Abhijeet Jain, Proprieto of M/s. A J & Associates, Membership No.: F4975, C.P. No.: 3426 as the Scrutinize for conducting the Postal Ballot through electronic voting in a fair and transparent manner. Members holding shares in physical mode and those members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same for registered with the Company / Registrar and Transfer Agents / Depository Participants / Depositories, may request for registration of e-mail ids for remote e voting for resolutions set out in the Notice. Members who have not received the Postal Ballot Notice vide e-mail may apply to the

Company at office@blpasari.com and obtain a duplicate thereof. The Postal Ballot Notice is also available at Company's website i.e. www.radhikaexports.co.in and CDSL's e-voting website, i.e. www.evotingindia.com. The e-voting rights of the Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. Friday

August 30, 2024. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only. The Scrutinizer will submit his report to the Company within two working days from

the last date of e-voting and the result of Postal Ballot will be announced accordingly The results would be communicated to the stock exchange and shall also be displayed on the Company's website i.e. www.radhikaexports.co.in. In case of any queries / grievances, the members may contact Ms. Tanvi Makker, th

Company Secretary and Compliance Officer of the Company at the Registered Office of the Company at 033 2230 3571 / 72 and email: office@blpasari.com, For an queries or issues regarding e-voting you may contact CDSL at Toll Free No. 022 23058738 and 022-23058542-43 or e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com. By Order of the Board of Directors

For Radhika Exports Limited Date: September 04, 2024

Place: Kolkata

Bijay Kumar Pasari **Managing Director** DIN: 00101682

VISHNU

CIN: L85200TG1993PLC046359 Regd off: H.No. 8-2-293/82/F/23-C, Plot No. 23, Road No. 8, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana – 500096, India Tel: +91-40-23327723, 040-23396817 Fax: +91-40-23314158. Email: investors@vishnuchemicals.com, website: www.vishnuchemicals.com

Annual General Meeting, Remote e-Voting, Book Closure and Dividend NOTICE is hereby given that the Thirty First (31st) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Vishnu Chemicals Limited ('the Company') will be held on Friday, September 27, 2024 at 11.00 A.M. (IST) via two-way Video Conferencing ('VC') facility / Other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY, to transact the businesses set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated September 25, 2023 and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated October 7, 2023, the Company has sent the Notice of the 31st AGM along with the link to the Integrated Annual Report for FY 2023-24 on Tuesday, September 3, 2024 ('date of completion of dispatch') only through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited('RTA') and Depositories since the requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.

The Integrated Annual Report 2023-24 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 31st AGM is available on the website of the Company at www.vishnuchemicals.com and on the websites of the Stock Exchanges. viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on e-voting website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") www.evotingindia.com

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standards - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

 The remote e-Voting facility would be available during the following period: Commencement of remote e-voting: From 9.00 a.m. (IST) on Monday, September 23, 2024

ii. End of remote e-voting: Upto 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 26, 2024 The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members

will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time; The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity

share capital of the Company as on Friday, September 20, 2024("Cut-Off Date"). The facility of remote e-voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before / during the AGM;

c. A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password for e-voting by sending a request at bsshyd1@bigshareonline.com. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/ she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

d. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquire shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and hold shares as of the cut-off date may follow the login process mentioned in the Notice of the AGM. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for e-voting facility. Aperson who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

 Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

f. In case of any gueries or grievances regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to toll free no. 1800 22 55 33.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 31stAGM and payment of dividend for the financial year 2023-24. The dividend, if declared by the Members, will be paid on or before October 27, 2024. In case the Company is unable to pay the dividend to any Member in their bank accounts

through electronic or any other means, due to non-registration of bank account details by the Members, the Company shall dispatch the dividend warrant / cheque to such Members at the earliest through speed post or courier as the case may be. Registration of e-mail addresses: Shareholders who have not registered / updated

their email address are requested to register / update the same on https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx or with their depository participant, as the case may be or send their consent at bsshyd@bigshareonline.com investors@vishnuchemicals.com along with their folio no. / DP & Client id and valid e-mail address for registration / updation.

Updation of bank account details: The shareholders who have not updated bank mandate details for receiving dividends directly in bank account through Electronic Clearing System or any other electronic means in a timely manner, are requested to update their details by following the procedure as updated on Company's website.

Place: Hyderabad

Date: September 4, 2024

For Vishnu Chemicals Limited Sd/-

Vibha Shinde Company Secretary & Compliance Officer

M.No. F8466

Place: Mumbai

Date: September 05, 2024

- O

MPS PHARMAA LIMITED (Formerly Advik Laboratories Ltd.)

CIN No.: L74899HR1994PLC038300 Corporate Office: 703, Arunachal building 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi 110001 Phones: 011-42424884, 43571040-45, Fax: 011-43571047

Read, Office & Factory: 138, ROZ-Ka MeoIndustrial Area, Sohna - 122103 (Distt. Mewat), Harvana Phones: 0124-2362471 Email: info@mpspharmaa.com Website: www.mpspharmaa.com Notice of Annual General Meeting. Book Closure and Remote E-voting Information

lotice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held or

Saturday, 28th September, 2024 at 09.30 A.M. at the Registered Office of the Company, at 138, Roz-

Ka-Meo, Industrial Area, Sohna. Distt. Mewat - 122103 (Haryana) to transact the business set out in notice dated 02nd September, 2024 of the AGM. The Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2023-2024 has been sent to all the members through permitted mode on 04th September, 2024. ursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain lesed from Sunday, 22nd September, 2024 to Saturday, 28th September, 2024 for the purpose of AGM compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in the AGM notice dated 02nd September 2024 through the Remote e-voting facility on the platform of National Securities Depository Limited NSDL). Remote E-voting will commence on 25th September, 2024 at 09:00 A.M. and end on 27th eptember, 2024 at 5.00 P.M. No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time he notice of the Annual General Meeting along with Remote e-voting instructions has also been displayed on the website of the Company www.mpspharmaa.com and on the website of the Agency www.evoting.nsdl.com. The Members of Company holding shares as on Saturday, 21st September 2024 may cast their votes Electronically through Remote E-voting platform of NSDL at www.eyoting.nsdl.com or vote at the General Meeting through the Ballot Form. Members may participate in the General Meeting even after Remote E-voting but shall not be eligible to vote at the meeting Voting, if exercised will be invalid and the vote caste through Remote E-voting will be considered Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case members have any queries or issues regarding Remote e-voting, they may refer the requently Asked Questions (FAQ) and Remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com nder help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in Shareholders may contact Registrar & Share ransfer Agent (RTA), M/s MAS Services Limited, contact no. 011-26387281-83 or their respective epositories for registration/updation of their email IDs and other matters my person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after

dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2024 may obtain the user id and password by sending the request at evoting@nsdi.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote evoting then existing user id and password can be used for

Members holding shares in physical form are requested to get their shares Dematerlised pursuant to SEBI Circular No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 08th June, 2018. Members ho hold shares in physical mode and have not registered / updated their email addresses. PAN/KYC details with the Company, are requested to register / update the details in the prescribed orm ISR-1 and other relevant forms with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company MAS Services Limited ("RTA"). Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HÖ/MIRSD/MIRSD-PoD 1/P/CIR/2023/37 dated March, 16, 2023, the Company has sent letters to the shareholders olding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. Further the shareholders can also access the relevant Forms on Company's website at www.mpspharmaa.com. Members holding shares in demat form are requested to update their email address/PAN/KYC details with their respective DPs. For MPS PHARMAA LIMITED

(Formerly Advik Laboratories Limited) Pooja Chun

Place: Sohna, Haryana

AMINES & PLASTICIZERS LTD. Reg. Office:T-11 Grand Plaza, Paltan Bazar, G S Road,

Guwahati, Assam 781 008.Assam. Corp Office: D/ 6, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018. Cont: 022 62211000 | Fax: 24938162

CIN: L24229AS1973PLC001446, Website: www.amines.com E-mail: legal@amines.com

NOTICE OF 49th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING. **BOOK CLOSURE & RECORD DATE**

Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Amines & Plasticizers Limited ('the Company') will be held on Friday, 27th September, 2024 at 4:00 p.m. (IST) through Two Way Video Conferencing("VC") / Other Audio - Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of the

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with general circular dated September 25, 2023 and other applicable circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular dated October 07, 2023 and other relevant circular issued by SEBI the Company has sent Notice of 49th AGM along with the weblink to access the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2023-24 on Wednesday, September 04, 2024 through the electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA") Depositories Participants ("DPs"). The Company shall send physical copy of Annual Report 2023-24 who specifically request for the same by sending an email to legal@amines.com mentioning their folio no./ DPID/ Client ID as applicable.

In compliance with the aforesaid circulars issued by the MCA and SEBI, the attendance of the shareholders through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act. The deemed venue for the AGM shall be the Corporate Office situated at Mumbai.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.amines.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("RTA"), at https://instavote.linkintime.co.in

Remote E-Voting: In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations and Section 108 of the Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India read with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM of the Company. electronically (remote E-voting) through e-voting platform of the RTA at https:/ instavote.linkintime.co.in. Detailed procedure and instructions for e-voting are given in the

The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Remote e-voting start date and time | Tuesday, 24th September, 2024 at 9.00 a.m. (IST)

The remote E-voting module shall be disabled thereafter, the members shall not

Remote e-voting end date and time Thursday, 26th September, 2024 at 5.00 p.m. (IST)

be allowed to vote beyond 5.00 p.m. on September 26, 2024 During this period of remote E-voting, Equity Shareholders of the Company holding

shares either in physical form or in dematerialised form as on the Cut-Off date i.e. September 20, 2024, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

may obtain the login id and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in / insta.vote@linkintime.co.in or call on 022 - 022-49186060. Members are also informed that E-Voting process has been enabled for all the indi-

Company after the dispatch of this AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date

vidual demat account holders, by way of single login credential, through their respective demat account / website of depositories viz. NSDL and CDSL / website of DPs in order to increase the efficiency of the voting process. Members are advised to update their mobile number and email ID in their demat account with their respective DPs in order to access the e-voting facility. Please read carefully the detailed procedure and instructions mentioned in the AGM Notice.

The facility for casting vote(s) through e-voting will be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their votes by means of remote e-voting may cast their votes during the AGM through InstaMeet e-voting facility available at the time of the AGM. Please refer instructions mentioned in AGM Notice for Members to Vote during the AGM through InstaMeet of the Notice.

Members may participate in AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.

Ms. Gayatri Vaibhay Phatak, Proprietor of M/s. G.S. Bhide & Associates, Company Secretaries (ACS: 31886, COP: 11816) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the e-voting process at the AGM in a fair and transparent manner and the results in respect of resolutions as set out in the Notice. along with Scrutiniser's report will be announced and communicated to the BSE, NSE, within two working days from conclusion of the AGM and will be uploaded on the Company's website at www.amines.com and on the website of RTA and shall also be put on the Notice Board of the Company

Book Closure: The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 13, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Record Date for Dividend: The Board of Directors ('Board') of your Company has at its meeting held on May 28, 2024, recommended final dividend of Rs. 0.50/- per equity share (of face value of Rs. 2/- each) for the financial year ended March 31, 2024. The Record Date for the purpose of payment of dividend for FY 2023-24 is September 13, 2024. The dividend on Equity Shares, if declared at the AGM, will be paid on or before October 26,2024 to those Members or their mandates: (a) whose name appears at the end of the business hours on September 13, 2024 in the list of Beneficial owners to be furnished by Depositories in respect of the shares held in demat form; and (b) to all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company as of the close of business hours on September 13,

Members holding shares in physical form and who have yet to register / update their bank account details for electronic receipt of dividend amount directly into their bank accounts are requested to update their KYC and bank account details by submitting Forms ISR-1, ISR-2 and SH-13 along with the supporting documents to our RTA i.e. Link Intime India Private Limited (Unit: Amines & Plasticizers Limited) at C-101, 247 Embassy Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra 400078.

In accordance with the SEBI Circular, dividends, in respect of physical folios wherein KYC details are not updated before the record date, will be held back by the Company and the dividend will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio. However, company will follow any mandate in case otherwise issued by the SEBI in this regard

TDS on Dividend: The Company has sent weblink for intimation for TDS on Dividend along with the email communication for 49th AGM and Annual Report for FY 2023-24.

In case of any query/grievance please refer to Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in or members may contact Mr. Jaiprakash, Senior Associate, LinkIntime India Private Limited by sending an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6270, LINK INTIME at enotices@linkintime.co.in, Details of helpdesk of depositories viz. NSDL and CDSL are also mentioned in the attached Notice, for members holding securities in dematerialised

Members who require any technical assistance before / during the Meeting to access and participate in the AGM, may write an email to instameet@linkintime.co.in

For Amines & Plasticizers Limited

Omkar Chandrakant Mhamunkar Company Secretary & Compliance Officer Date: September 04, 2024 Membership No.: ACS 26645 Place: Delhi

GLITTEK GRANITES LIMITED Registered Office: Plot No. 42, KIADB Industrial Area, Notice: NOTICE is hereby given that 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 27th September, 2024 at 11.30 A.M. via two-way Video Conferencing ('VC facility')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') ONLY to transact the businesse

continuation with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 9/2021 and 2/2022 (collectively called 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India Circular dated May 12, 2021 SEBI Circular) and January dated 15, 2021, it has been decided by MCA and SEBI to allow companies to hold AGM/EGM withou

The Company has send the Notice of the 34th AGM along with the link for the Annual Report 2023-24 on day 4th September, 2024 nrough electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars and Transfe Agent ('RTA') and Depository participant(s). The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispense vith vide MCA Circulars and SEBI Circular

The e-copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company is available on the website of the Company http://www.glittek.com.also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE at www.bseindia.com. The AGM Notice is also available on the website of Central Depository Service Limited ('CDSL')

n compliance with Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rul 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members, the facility of remote e-voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, by electror

neans through e-voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) e-voting period will commence from Tuesday 24th September, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday 26th September, 202 5.00 p.m. IST) As the voting portal would be blocked after voting period is over, shareholders are requested to cast their vote

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of th Company as on 20th September 2024 (cut off date). The facility of remote e-voting shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have

not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is ecorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before / during the AGM he members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to ca Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice ar

nolding shares as of the cut-off i.e. September, 20th, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request a nelpdesk.evoting@cdslindia.com. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIE

FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE . For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the shar certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) b

2. For Demat shareholders- please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID) Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (se attested scanned copy of Aadhar Card) to Company/RTA email id Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholder may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-votin

you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequent Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, or contact Mr. Moloy Biswas, Regional Manage Kolkata at Phone (033) 2282-1376 or e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com or moloyb@cdslindia.com. under help section All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSI Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Mara Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com/mcssta@rediffmail.com

FURTHER NOTICE is also given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (LODF Regulation, 2015, the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21 stember 2024 to Friday 28th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For Glittek Granites Limited lace: Bangalore. Date: September 4th, 2024 Sd/- Lata Bagri, Company Secretary & Compliance Office

SMS PHARMACEUTICALS LIMITED CIN: L24239AP1987PLC008066

Regd. Office: Plot No. 72, H. No.: 8-2-334/3&4, Road No. 5 Opp. SBI Executive Enclave, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana- 500034, Contact No. 040-35359999 / 2525 9999 mail :complianceofficer@smspharma.com, cs@smspharma.com | Web: www.smspharma.com

INFORMATION REGARDING 36™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS . Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will

be held on Monday, September 30, 2024, at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, in accordance with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI) and pursuant to the Provisions of the Companies Act, 2013, without the physical presence of the members at a common venue. The notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 including the

financial statements for the year ended March 31, 2024 shall be sent to all the members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the aforesaid Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.smspharma.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com. respectively . Members whose email ids are not registered/ updated with their Depository are hereby

requested to register/update their email ids with the respective Depository or with Aarthi Consultants Private Limited (the Company's RTA) by sending a request to the Company's RTA on the email address at info@aarthiconsultants.com with subject line (Unit-SMS Pharmaceuticals Limited) with a copy marked to cs@smspharma.com: Name of member:

Folio No./Client ID and DP-ID:

September 23, 2024

In case shares are held in Physical form- Scan Copy of Share Certificate;

Self-attested scanned copy of the PAN Card; and

Self-attested scanned copy of AADHAR Card

Alternatively, Members may also visit website of the Company's RTA and submit their details at web link: http://www.aarthiconsultants.com/investors/register.php The record date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended March 31, 2024, if approved at the 36th AGM of the Company, is

. Dividend income is taxable in the hands or shareholders and the Company is required to deduct tax at source at the prescribed rates from dividend paid to shareholders. The shareholders are requested to refer to the income Tax Act, 1961 for the prescribed rates applicable to them and make such disclosures as may be applicable to them. The

shareholders are requested to submit applicable declarations /documents on or before September 23, 2024. Members are requested to register/update the Bank Account details for receipt of Dividend directly to their Bank Account with the respective Depository Participants.

For SMS Pharmaceuticals Limited

Place: Hyderabad Date: 04.09.2024 Thirumalesh Tumma Company Secretary



Regd. Office: B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate, Industrial Area Patparganj, New Delhi-110092, CIN: L82990DL1997PLC088373

Email- md@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com

NOTICE OF 27™ ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Solutions Limited is scheduled to be held on Friday, the 27" day of September, 2024 at 11:45 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the 27th AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and pursuant to circulars issued by MCA/SEBI, allowing companies to hold AGM without physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for 27th Annual General Meeting (AGM) will be Registered Office of the Company. The quorum will be considered on the basis of the members participating the AGM through VC/OAVM mode. pursuant to section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic copy of Notice of the 27" Annual General Meeting and Annual Report have been sent to all the Members whose e-mail id is registered with the company/Depositories as on 30" August, 2024. The process of dispatch of Notice and Annual Report was completed on

Remote E-Voting

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ('the Rules') as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members; the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business transacted as set forth in the Notice of Annual General Meeting of the Company through the remote evoting facility provided by NSDL. The detailed instructions for remote e-voting facility are

The Notice of the 27" Annual General Meeting is available on the Company's website at www.aceintegrated.com and on NSDL website www.evoting.nsdl.com and 27" Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 is available on the

The remote e-voting will commence on Tuesday, September 24, 2024 at (09:00 a.m.) The remote e-voting will end on Thursday, September 26, 2024 at (5:00 p.m.) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond (5:00 p.m.)

Thursday, September 26, 2024 (5:00 p.m.) and once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Person who has acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., September 20, 2024 may cast their votes by following the instructions and process of

date and any person who is not a member as on that date should treat this Notice for information purposes only. Members may participate in the annual general meeting electronically even after

exercising right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again

e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com Closure of Register of Members and Share Transfer Books of the Company

Pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday,

September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of holding 27" Annual General Meeting of the Company.

Rahul Chauhan (Company Secretary) Membership No. ACS - 65069

MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 Tel: +91-11-42420015 | E-mail: info@magnumventures.in Website: www.magnumventures.in

Notice of 44th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

votice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 02:00 P.M. through Video conferencing ("VC") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year ended 31st March, 2024 and remote e-voting details have been sent to all the members who hold shares as on cutoff date, i.e. 30th August, 2024, by email, whose email id is registered with the Company/ RTA/Depository(s). The date of completion of email of the notices to the shareholders is September 5th, 2024. The said documents can also be viewed on the company's website Pursuant to General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the

Securities and Exchange Board of India, it is allowed to hold AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow

below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for FY 2023-24 and

Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of AADHAR Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no, if not registered already.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and

regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 22nd September, 2024 to 28th September, 2024(both days inclusive) for the Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company

has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities

Depository Limited (NSDL) through their portal www.eyoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The member please note the followings:

voting at AGM is 21st September, 2024.

 a. The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Wednesday, 25th September, 2024 and shall end at 05.00 p.m. on Friday, 27th September 2024. The remote e-voting shall not be available beyond the aforesaid date & time.

. The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and e-

Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 21st September, 2024, may obtain the user id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or M/s MAS

 However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote evoting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

f. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the

Services Ltd., R & T Agent of the Company at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area,

Phase-II, New Delhi-110 020 phone-011-26387281/82/83, Fax-011-26387384, Email-

members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Members may go through the detailed e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit www.evoting.nsdl.com and Any guery/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Aaina Gupta, Company Secretary, Magnum Ventures Limited at cs mvl@cissahibabad.in or to Mr. Shravan Mangla, GM, Mas Services Limited, RTA at

investor@masserv.com M/s. Munish K Sharma & Associates LLP has been appointed as Scrutinizer for the evoting process.

Date: 04/09/2024 Place: Ghaziabad Pardeep Kumar Jain (Managing Director) DIN: 00024879

For Magnum Ventures Limited

MOTISONS JEWELLERS LIMITED

Registered Office: 270, 271, 272 & 76, John Bazar, Jaipur - 302003 Corporate Office: SB-110, Motisons Tower, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur - 302015 F-33, Gautam Marg, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021

Tel No: +91-0141-4160000 | Email: complianceofficer@motisons.com Website: www.motisonsjewellers.com | CIN: L36911RJ2011PLC035122 NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING.

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND CLOSURE

OF REGISTER OF MEMBERS

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Motisons Jewellers Limited ("the Company") will be held on Friday, 27th September, 2024 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated Monday, 02nd September, 2024 in compliance with the applicable provision of Companies Act 2013 ("the Act") Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI(LODR)") read with Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020,02/2021,21/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 08th April, 2020; 13th April, 2020; 05th May, 2020; 13th January, 2021; 14th December, 2021; 05th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023 respectively and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/ P/2020/79 dated May 12, 2020; SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, dated May 2022; SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the

Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent in electronic mode to the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants(s), unless any member has requested for a physical copy of the same. Members may note that the notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the Company's website at www.motisonsjewellers.com, website of Stock exchanges i.e. BSE Limited and National stock exchange of India Ltd. i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in

Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars").

The register of members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to the provision of Section 108 of Companies Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (as amended) and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facilities to its members through Link Intime India Private Limited ("LIIPL") in respect of business to be transacted at the said AGM and the business may be transacted through voting by electronic means("remote e-voting").

 a) The remote e-voting period shall begin on Tuesday, 24th September, 2024 at 09:00 A.M. ("IST") and end on Thursday, 26th September, 2024, at 05:00 P.M. ("IST") remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Friday, 20th September, 2024 may cast

b) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, 20th September, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or evoting at the AGM. The detailed procedure/instruction for remote e-voting and e-voting at the AGM are contained in the Notice of the AGM.

the meeting) shall be in proportion to one vote per equity share of the Company held by them as on Friday, 20th September, 2024 ("Cut-off date").

d) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at rnt.helpdesk@linkintime.co.in mentioning their demat account number/folio number, PAN, name and registered address. However, if he/she is already registered with Link Intime India Private Limited for remote e-voting then he/she can use his/her existing

 e) Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

f) Shareholders who have voted through Remote e-voting will also be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote through e-voting at the meeting.

g) Process for those shareholders whose email addresses are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting for the resolutions proposed in

attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to i.e. mt.helpdesk@linkintime.co.in and get the same

respective Depository Participant (DP). · For Individual Demat shareholders-Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

 The Company has appointed Mr. Akshit Kumar Jangid, Practicing Company Secretary (FCS 11285, CP No. 16300), partner of M/s. Pinchaa & Co., Jaipur, as a Scrutinizer to scrutinize the e-voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner. The results declared along with the report of Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.motisonsjewellers.com and on the website of LIPL https://instavote.linkintime.co.in, immediately after the declaration of

you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in or contact the company at telephone no: +91-0141-4160000, E-mail- complianceofficer@motisons.com Contact Person: Bhavesh Surolia, Company Secretary and Compliance Officer.

> Bhavesh Surolia Company Secretary and Compliance Officer

financialexp.epapr.in

ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Phone No. 011-49537949, Website- www.aceintegrated.com

Notice is hereby given that the 27" Annual General Meeting (AGM) of Ace Integrated

04" September, 2024.

stained in the Notice of Annual General Meeting which has been sent to the Members.

Company's website at www.aceintegrated.com.

The Members holding shares either in physical form or dematerialized form, on cutoff date i.e., September 20, 2024 may cast their vote electronically to transact the business set forth in the Notice of AGM.

remote e-voting as provided in the Notice of the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. There will be one e-vote for every Client ID irrespective of the number of joint holders. Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on the cut-off

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the

For ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Date: 04" September 2024 New Delhi

Place: Jaipur

M. No.: A64329

n this regard, the Members are hereby further informed that:

The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or e-voting during

User ID and password for casting the vote.

. For Physical shareholders-Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-

· For Demat shareholders-Please update your email id & mobile no. with your

result by the Chairman or a person authorized by him in writing. In case you have any queries or issues regarding remote e-voting including e-voting

> By Order of the Board of Directors For Motisons Jewellers Limited

जनसता

वाला पता तथा ई-मेल

7. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 5.9.2024

ेसंबंधित प्रपत्र जिसमें दावे जमा की जाएगी, उपलब्ध **''प्रपत्र बी'**'

🕸 इण्डियन ओवरसीज़ बेंक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है

गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल - अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक संपर्क केंद्र संचालन की स्थापना और रखरखाव के लिए सेवा प्रदाता का चयन बोली संख्या : जीईएम/ 2024/ बी/ 5354204 दिनांकित : 03.09.2024 उपर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटो www.iob.in एवं www.gem.gov.in पर उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है ।

निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेते रहें ।

FRUITION VENTURE LIMITED

Regd. Office: 1301, Padma Tower-1 Rajendra Place, New Delhi-110008 CIN: L74899DL1994PLC058824 Phone: 011-25710171, Fax: 011-45084858 Website: www.fruitionventure.com, E-mail: cs@fruitionventure.com NOTICE

Information regarding 30th Annual General Meeting of The Company NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Fruition Venture Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Monday, 30th September, 2024 at 11.00 A.M (IST) to transact the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of the 30th. AGM. The venue of the

 Rajendra Place, New Delhi-110008. In compliance with General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17 2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 20/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), permitting convening of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, the attendance of members attending

Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., 1301, Padma Tower-

through VC/DAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM. In compliance with the applicable circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2023-24 have been sent to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed on Tuesday. September 3rd 2024. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2023-24 has been dispensed with pursuant to the aforesaid MCA Circulars SEBI Circulars. The Annual Report and Notice of 30th AGM are also available on the Company's website www.fruitionventure.com and on the website of CDSL at https://www.cdslindia.com and can also be accessed on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindla.com Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2, the Company is pleased to provide electronic voting facility to Members to exercise their right to vote on resolutions proposed. to be transacted at the 30th Annual General Meeting.

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e. Monday 23rd September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the 30th AGM. A person who is not member as on the said cut-off date should treat this notice for information purpose only.
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Monday 23rd September, 2024.
- The remote e-voting period will commence 27th September, 2024 at 9:00 A.M. and ends on 29th September, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting at 05:00 P.M. on 29th September, 2024 at 05:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- The remote e-voting module will be disabled by CDSL thereafter and Members will not be nically beyond the said date and tin
- Members who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the USER ID and Password for casting the vote.
- Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the
- Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM Notice which is available on the Company's website at www.fruitionventure.com, on the website of CDSL a www.evotingindia.com and on the websites of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

For any technical assistance/ query/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.: 1800 22 55 33.

Ms. Jinu Jain, Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than

two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website i.e. www.fruitionventure.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Equity Shares are listed viz. BSE and be made available at www.bseindia.com

Manner of registration of e-mail address The entire shareholding of the Company is in Demat form. For the limited purpose of sending the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 through e-mail to those members whose e-mail address is not registered with their Depository Participant, such members may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN Card (Self Attested Copy), Aadhar Card (Self Attested Copy) to Company

RTA e-mail id at investor.services@rcmcdelhi.com It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective Depository Participant,

> For Fruition Venture Limited Nitin Aggarwal

> > Managing Director

Place: New Delhi Date: September 03, 2024

DIN-0161615 एसीई इंटीग्रेटेड सॉलूशन्स लिमिटेड रिज. कार्यालयः बी-13, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट,

सीआईएनः L82990DL1997PLC088373 ईमेल- md@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com फोन नंबर 011.49537949, वेबसाइट- www.aceintegrated.com

औद्योगिक क्षेत्र पटपडगंज, नई दिल्ली-110092

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक

क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 11.45 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागु प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने के लिए कंपनियों को अनुमति वाली ,एमसीए / सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, 27वीं एजीएम के नोटिस में| निर्धारित अनुसार कार्यवाही करने हेतु आयोजित होने वाली है। 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के आधार पर कोरम पर विचार किया जाएगा।

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई–मेल आईडी 30 अगस्त, 2024 को कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया 04 सितंबर, 2024 को पूरा हुआ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान के साथ पठित समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 ('नियम') के नियम 20 और सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित किए गए सभी लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत निर्देश सदस्यों को भेजी गई वार्षिक आम बैठक की सूचना में निहित हैं।

1. 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.aceintegrated.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की

वेबसाइट www.aceintegrated.com उपलब्ध है। 2. रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को (सुबह 09:00 बजे) शुरू होगी।

3. रिमोट ई—वोटिंग गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को (शाम 5:00 बजे) समाप्त होगी। 4. रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे) के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दिए

जाने के बाद, सदस्य को इसे बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5. कट—ऑफ तारीख यानी 20 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर लेन-देन करने के

लिए इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। 3. ईजीएम की सूचना भेजने के बाद और कट—ऑफ तारीख यानी 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखने वाले और कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार

रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। 7. एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त धारकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक ग्राहक आईडी के लिए एक ई-वोट होगा। वोटिंग अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भूगतान किए गए मूल्य पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो उस तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल

सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। . सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई–वोटिंग के बारे में ई–वोटिंग सिस्टम से सम्बंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 022-4886 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in

पर अनुरोध भेजें। कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तकों को बंद करना

दिनांकः ४ सितंबर, 2024

स्थान : दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें, शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) कंपनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कृते एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड

हस्ता / -राहुल चौहान (कंपनी सचिव) सदस्यता संख्याःएसीएस - 65069 आरटीसीएल लिमिटेड

सी.आई.एन.: L16003UP1994PLC016225 पंजीकृत कार्यालयः ८/२२६, द्वितीय तल, एसजीएम प्लाजा, आर्य नगर, कानपुर, उ०प्र०-२०८००२ प्रशासनिक कार्यालय ६९२६, जयपुरिया मिल, क्लाक टावर, सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007 वेबसाइट www.rtcllimited.in ई-मेल: rgc.secretarial@gmail.com

30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) एवं रिमोट ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूचना

- कम्पनी आरटीसीएल लिमिटेड की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2024 को पूर्वान्ह 02:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसजीएम प्लाजा, 8/226(1), द्वितीय तल, आर्य नगर, कानपुर-208002 में आयोजित की जायेगी, जिसमें दिनांक 31 अगस्त, 2024 की सुचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।
- कम्पनी के सदस्यों/अंशधारकों का रजिस्टर और शेयर्स ट्रान्सफर बुक्स दिनांक 22 सितम्बर, 2024 से दिनांक 28 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगें।
- सभी वैध शेयर्स के इलेक्ट्रानिक रूप में प्रभावी हस्तान्तरण होने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों/शेयर धारकों का सामयिक रजिस्टर कम्पनी/रजिस्टार एवं अशं-हस्तान्तरण अभिकर्ता मेसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, अभिप्रा कॉम्प्लेक्स, दिलखुश इण्डस्ट्रियल एरिया, ए-387, जी0टी0 करनाल रोड, आजाद नगर, दिल्ली-110033 के समक्ष दर्ज है।
- कम्पनी ने एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ, उपस्थिति पर्ची के साथ प्रॉक्सी फार्म एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों/शेयर धारकों को भेज दी हैं, जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी/आरटीए के पास
- एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेवसाइट www.rtcllimited.in पर भी उपलब्ध है एवं सामान्य कार्य दिवसों (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) में कार्य अविध के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।
- कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित नियम 20 तथा सूचियन विनियमीं के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-108 के विनियम 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज हिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों पर मतदान के लिए इलेक्ट्रानिक सुविधा, रिमोट ई-वोटिंग प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे प्रारम्भ होगी और शुक्रवार दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को भारतीय समायानुसार सार्थ 5:00 बजे समाप्त होगी। सदस्य (एनएसडीएल) की वेवसाइट www.evoting.nsdl.com पर एजीएम की सूचना के नोट सं.-17 में दिये निर्देशों का पालन करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।
- कटऑफ तिथि दिनांक 21 सितम्बर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइन्ड रूप में शेयरों को धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक माथ्यम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग माडधूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे पुनः संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- मतदान का अधिकार सदस्यों द्वारा शनिवार दिनांक 21 सितम्बर, 2024 (कटऑफ तिथि) को धारित शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए तभी पात्र होंगे जब उनके पास उक्त दिनांक को शेयर्स होंगे अथवा वे कम्पनी के अंशधारक होंगे।
- जिन सदस्यों तक ई-वोटिंग सुविधा नहीं पंहच पा रही है, कम्पनी ने उन सदस्यों को भी वोटिंग की सुविधा प्रदान की है कि वे सभी सदस्य वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न पोस्टल बैलेट फार्म पर लिखित रूप में अपनी सहमति या असहमति भेज सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) में उपलब्ध है।
- 10. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ के लिए शेयर धारक/सदस्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध निरन्तर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्य) और ईवोटिंग मैनअल सेक्शन का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नम्बर-1800-1020-990 पर कम्पनी रजिस्टार, मेसर्स अभिप्रा कैपिटल मिमिटेड से उनके विनिदेशित ई-मेल rta@abhipra.com पर जानकारी ले सकते हैं।
- यदि सदस्य अपना वोट दोनों प्रक्रियाओं यानि रिमोट ई-वोटिंग और बैलेट फार्म के माध्यम से डालते हैं तो सर्वप्रथम इलेक्टॉनिक सिस्टम यानि ई-वोटिंग द्वारा डाले गये वोटों को लिया जायेगा और बैलेट फार्म के द्वारा डाले गये वोटों को नजरंदाज किया जायेगा।
- 2. वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में प्रवेश उपस्थिति पर्ची द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, जोएजीएम की सूचना/वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक/सभा में विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची लायें और उसे प्रवेश द्वार पर सौंप दें।
- 13. कोई भी सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग अधिकार के माध्यम से वोट देने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 14. संवीक्षक/ जींचक अपनी अन्तिम रिपोर्ट वार्षिक साधारण सभा में मतदान के समापन के बाद प्रस्तत करेंगे। यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2024 है।
- 5. कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त 30वीं वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित निर्णयों/प्रस्तावों के परिणाम की उद्योषणा संवीक्षक/जाँचक की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद की

दिनांकः 04 सितम्बर, 2024

स्थानः कानपुर

कृते आरटीसीएल लिमिटेड (अजय कुमार जैन) निदेशक ਵਿੱਜ 00043349

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड सीआईएनः L74999DL1984PLC018610 पंजीकृत कार्यालयः डी–3/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज ।। नई दिल्ली – 110 020 वेबसाइटः www.ebl.co.in, ई-मेलः secretarial@chokhani.in, contact@ebl,co,in

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और इलेक्टॉनिक वोटिंग के बारे में जानकारी

रततद्वारा सूचना दी जाती है कि ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड 'कंपनी' के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक

फोनः 011- 47105100

(एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के सभी लागू प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2022, 10/2022, 09/2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सभी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जानी है। परिपत्र') और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी / सीआईआर / पी / 2020 / 242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र (इसके बाद सामुहिक रूप से श्सेबी परिपत्रश् के रूप में संदर्भित), जिसमें सदस्यों की सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

अधिनियम, सेबी लिस्टिंग विनियमन, एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की 40वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 04 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / इसके रजिस्ट्रार और शेयर टांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) (''डिपॉजिटरी'') के पास पंजीकत हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 40वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.ebl.co.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') https://www.evotingindia.com से

डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम की सुविधा कंपनी के सभी पात्र सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सिस्टम (सामूहिक रूप से ''इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग'' के रूप में संदर्भित) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए प्रदान कर रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'')

की सेवाएं ली हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स एसएसपीके एंड कंपनी (कंपनी सचिव) श्री संजीव पांडे (सदस्यता संख्या—एफ—10272) को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है ताकि रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणाम स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ गू कानून के तहत स्वीकार्य समय के भीतर घोषित किए जाएंगे। परिणाम और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.ebl.co.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित की जाएगी। अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण निम्नानुसार

रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट—ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कट—ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोट कर सकता है। लॉगिन विवरण प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.ebl.co.in पर उपलब्ध है।

वे सदस्य जो वीसीध्ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए कंपनी/आरटीए या डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकृत/अपडेट करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते पंजीकृत करने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है जो कंपनी की वेबसाइट www.ebl.co.in पर उपलब्ध है।

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार संबंधित व्यक्ति की जानकारी इस प्रकार है: 1. नाम: श्री राकेश दलवी

सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए

2. पदनामः प्रबंधक 3. पताः सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, मैराथन फ्यूचरएक्स, ए–विंग 25वीं मंजिल, मफतलाल मिल्स, कंपाउंड एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, (पूर्व) मुंबई–400013

। ई-मेल आईडीः helpdesk.evoting@cdslindia.com 5. फोन नंबर: 022— 23058738 /022—23058542/43

हस्ता/-स्थानः नई दिल्ली दिनांकः ०४ सितंबर, २०२४

अर्पित शर्मा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी एम. नं. एसीएस-45885

ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड के लिए

फेडरल बैंक

ापका सम्पूर्ण वैकिंग भागीदार

एलसीआरडी / नई दिल्ली डिविजन, यू.जी.एक, फेडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733980, 40733978 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in सरफ़ेंसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के

साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना. (1) श्री / श्रीमती हरि ओम मिश्रा उपनाम हरिओम मिश्रा पुत्र गोविंद माधव मिश्रा उपनाम एलटी

जी एम मिश्रा जायसवाल, (क) मकान सं. पी 119, नेहरू एन्क्लेव, गोमती नगर, सिटी – लखनऊ, राज्य – उत्तर प्रदेश -

226010, (ख) अपार्टमेंट नं. टी-8/08-03, मेट्रो सिटी, पेपर मिल कंपाउंड निशतगंज,

(2) श्री / श्रीमती रश्मि मिश्रा पत्नी हरिओम मिश्रा, मकान सं. पी 119, नेहरू एन्क्लेव, गोमती नगर, सिटी – लखनऊ, राज्य – उत्तर प्रदेश – 226010

बंधककर्ता के रूप में निम्न सुविधायें प्राप्त की थीं : (क) प्लास्टरिंग तक संपुरित निर्माण के साथ रेडी निर्मित फ्लैट / फ्लैट के क्रयार्थ 30.09.2016 को रु. 50,00,000 / – का संख्या 16797300000158 के साथ फेडरल हाउ. सिंग लोन (एफएचएस) तथा

कि आप 1 ने प्रमुख उधारकर्ता के रूप में तथा 2 ने गारंटर / सह-दायित्वधारक /

(ख) बैंक के पक्ष में अनिवार्य प्रतिभृति अनुबंधों / ऋण प्रलेखों का निष्पादन करने के उपराँत, व्यक्तिगत उपयोगार्थ 23.04.2018 को रु. 36.00.000 / – (रुपये छत्तीस लाख मात्र) का संख्या 16797600000361 के साथ होम प्लस टॉप अप इक्विटी प्रॉपर्टी (प्रॉपर्टी पावर) लोन।

बैंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सविधाओं की प्रतिभति के प्रति, आपने निम्नलिखित वाहनो के संबंध में मूल रूप में 26.10.2016 को तथा हाल ही में 23.04.2018 को बंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किया था :-

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

तैयार निर्मित सी टाईप फ्लैट के समस्त भाग तथा अंश जो 8वें तल पर, टॉवर नं. 08 में, खुली आरक्षित पार्किंग नं. 0-146 के साथ, नंबर्ड टी-8/08-03, मेट्रो सिटी फेज-।। (टॉवर 1 से टॉवर 8) में स्थित, मापन 126.27 वर्ग मीटर। खसरा संख्यायें 50(पी), 51(पी), 52(पी), 53(पी), 54(पी), 81(पी) तथा 82(पी) धारक पट्टाकृत भूमि के एक भाग पर निर्मित, बना हुआ क्षेत्र जिसका निवल क्षेत्रफल 50435.39 वर्ग मीटर, सभी जो हैं वे पूरा इमाम बख्श, मोहल्ला हसनगंज पार, (पेपर मिल कंपाउंड) लखनऊ में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित हैं :- उत्तर पूर्व : अपार्टमेंट नं. टी-7 / 802 के साथ कॉमन वाल, उत्तर पश्चिम आँतरिक सड़क तथा भू तल पर पार्क, दक्षिण पूर्व : आँतरिक सड़क तथा भू तल पर पार्क और दक्षिण पश्चिम : सामान्य लॉबी।

उपर्युक्त दृष्टिबंधककृत / बंधककृत संपत्तियाँ जो यहाँ इसमें इसके उपराँत 'प्रतिभूत परिसंपत्तियों के रूप में संदर्भित हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वह द फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदुद्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक की लखनऊ गोमती नगर शाखा के साथ अनुरक्षित होम प्लस टॉप अप इक्विटी (प्रॉपर्टी पावर) ऋण खाता सं. 16797600000361 के अंतर्गत 23.07.2024 के अनुसार आपकी ओर से संयुक्त एवं पृथक रूप में रु. 25,71,113.02/- (रुपये पच्चीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ तेरह तथा दो पैसे मात्र) तथा आपके एफएचएस खाता 16797300000158 के अंतर्गत 30.06.2024 के अनुसार रु. 28,93,053 / – (रुपये अट्टाईस लाख तिरानबे हजार तिरेपन मात्र) की एक राशि देय-भुग्तेय है। प्रतिभुगतान में हुई चूक को दृष्टिगत रखते हुए आपके ऋण खाता / खातों को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार 22-07-2024 को अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अतः आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, भुगतान की तिथि तक होम प्लस टॉप अप इक्विटी (प्रॉपर्टी पावर) ऋण के अंतर्गत 23.07.2024 से अतिरिक्त / दांडिक शुल्कों एवं लागत तथा लागतों के साथ मासिक शेषों के साथ 11.15 प्रतिशत वार्षिक की दर पर तथा एफएचएस के अंतर्गत 30.06.2024 से अतिरिक्त / दांडिक शूल्कों एवं लागत के साथ मासिक शेषों के साथ 9.45 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान कर दें, और भुगतान करने में विफल होने पर बैंक जो है वह आपके तथा ऊपर वर्णित प्रतिभृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्राप्त समस्त शक्तियों का योग करेगा, जिसमें आपको कोई भी भावी सुचना दिये बिना बकाया देयराशियों की वसुली करन हेत प्रतिभत परिसंपत्तियों का पटटा. समनदेशन अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने अथवा उनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने के अधिकार सहित उनका अधिग्रहण करने जैसे प्रयोग सम्मिलित होंगे। यह सचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित प्रतिभत परिसंपत्तियों में से किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। अपने दायित्व का निर्वहन करने में आपकी विफलता की स्थिति में बैंक जो है वह ऊपर उल्लेखितानुसार उपचारात्मक कार्रवाइयां आरंभ करेगा और आप इसके बाद उक्त से संबद्ध बैंक को देय समस्त लागतों. प्रभारों और उपगत व्ययों का भगतान करने के लिये उत्तरदायी

यदि प्रतिभत परिसंपत्तियों की बिक्री से होनेवाली आय से बकाया देयराशियों की पर्ण प्राप्ति नहीं होती है. तो बैंक जो है वह कोई भावी सचना दिये बिना ही शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों (प्रतिभूत संपत्तियों) के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में

अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। यह सुचना जो है वह अपनी देयराशियों की वस्ती करने के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गई है। यह सूचना 30 जुलाई 2024 को निर्गत की गई थी और सूचना आपको प्रेषित की गई थी / भेजी गई थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपको प्राप्त नहीं हुई है इसीलिये सरफॉएसि अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की अनिवार्यता

कते फेडरल बैंक लिमिटेड, सह उपाध्यक्ष आज दिनांक 03 सितम्बर 2024 (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड (सीआईएन : एल65993डीएल1989पीएलसी035409) पंजीकृत कार्यालय : डीएससी—327, द्वितीय तल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई

दिल्ली—110017 —मेल : alliance.intgd@rediffmail.com, वेबसाइट :www.aiml.in दूरभाष: 011—41049702, 35वीं वार्षिक आम बैठक, ई वोटिंग तथा बही समापन की सूचना

तद्द्वारा एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंप-की 35वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को दोप. 12.00 बजे (आईएसटी) को वीडियं कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य दुश्य–श्रव्य संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जानी अनुसूचित है जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय(यों) का संचालन किया जायेगा। एजीएम की कार्यवाहियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संचालित की जानी हैं, जिसे एजीएम आयोजन का स्थल माना जायेगा, प्तामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसंबर 2021, 04 ाई 2022 तथा 28 दिसंबर 2022 और इनसे संबंधित विभिन्न अन्य परिपत्रों (सामृहिक रूप में ''एमसीए परिपत्रों के रूप में सन्दर्भित) तथा भारतीय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. सेबी / एचॐ / सीएफडी / सीएमडी1/ सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी / एचओ तीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021 तथा परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022 तथा परिपत्र नं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 सेबी / एचओ / सीएफडी /पीओडी–2 / पी/सीआईआर/ 2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 और मास्टर परिपत्र सेबी /एचओ / सीएफडी /पीओडी—2 /सीआईआर/ पी/ 2023/120 दिनांक 11 जुलाई 2023(''सेबी परिपत्र'') के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सूचीकरण दायित्व एव प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 और कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके भंतर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन–देन करने

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023—24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना क् इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन अंशधारकों को भेज दी गयी हैं जिनके नाम शूक्रवार 30 अगस्त 2024 को व्यवसाय व ग्टों के दौरान सदस्यों की पंजिका में प्रविष्टकृत पाये जाते हैं तथा जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागिय हे साथ एवं कंपनी अथवा मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, रजिस्ट्रार्स ए अंश अंतरण अभिकर्ता के साथ पंजीकृत हैं। उक्त प्रलेखों को ईमेल करने का कार्य मंगलवार, 03 सितम्बर 2024 को पूर्ण कर लिया गया है।

. संशोधितानुसार प्रासंगिक प्रयोज्य नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धा 91 के प्रावधानों तथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताः विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां, एजीएम के उददेश्यार्थ 19 सितम्बर, 2024 से लेकर के 25 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

इसके बाद, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली 2015 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित अनुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम' की धारा 108 तथा भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताये विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ('दूरस्थ ई–मतदान') द्वारा वोट डालने के उनके अधिकार की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऑनलाइन मतदान करने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी तथा वे सदस्यगण जिन्होंने बैठक की तिथि से पूर्व ही अनुसूचीग नतदानावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से अपने वोट पहले ही डाल चुके हैं, वे एजीएम की तिथि हे अनुसार ऑनलाइन मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। सदस्यगण जो कि वीसी/ओएवीएम के माध्यर प्ते भागीदारी कर रहे हैं उनकी गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उददेश्य हेतु की जायेगी। कंपनी ने रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटर्र मर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके उपरांत ''सीडीएसएल'' के रूप में संदर्भित) की सेवायें ली हैं अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन के विवरण यहां नीचे दिये गये अनुसार हैं : रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 22 सितम्बर, 2024 को प्रारंभ होगी और मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 क

समाप्त होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया

. कंपनी के सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनका नाम 18 सितम्बर, 2024 की कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से वोट करने के हकदार होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर हासिल किए हैं और एजीएम की सूचना भेजने के बाद लेकिन 'कट–ऑफ डेट से पहले सदस्य बन गया है, वह कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर व पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062, फोन:011-29961281-83 ईमेल: पदअमेजवत / इममजंसपिदंदबपंसण्बवउ से ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता

इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के साथ-साथ एजीएम दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से वोटिंग की जांच करने के लिए एएएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी कंपनी सचिव (एलएलपीआईएनः एएडी–2934) को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर भी डाले जाएंगे।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनूरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियं के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड को इस संबंध में investor@beetalfinancial.com पर लिखें।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in और सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com और बीएसई वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए,सदस्यगण 35वीं एजीएम की सूचना में 'नोट्स' अनुभाग

जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। यदि आपके पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और

022-23058542/43 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप में, एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि को ध्यानपूर्वक पढें।

कृते एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड

दलजीत सिंह चहल

डीआईएन : 03331560

अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक

स्थानः गुरुग्राम

दिनांकः ४ सितंबर, 2024

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 03 सितम्बर 2024

(दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 (1) एवं (2) के अंतर्गत) श्री विपुल गुप्ता, ग्रीनवर्ल्ड इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (U37100DL2012PTC243731) के गारंटर्स के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ डेब्टर/पर्सनल गारंटर का नाम श्री विपुल गुप्ता 2. डेब्टर/पर्सनल गारंटर का पता 7413, डीएलएफ-4, गुड़गाँव-122002 साथ हीः बीएन-54, वेस्ट शालीमार बाग, दिल्ली-110081 आईबी-97/एनडी/2024 में आईए-2511/2024 में आदेश तिथि आवेदन स्वीकृत करने के आदेश का विवरण 23.8.2024 (आदेश की प्रति आरपी को 3.9.2024 को प्राप्त हुई) 4. प्रस्ताव कर्मी जिनके पास दावे जमा की जाएगी, का **श्री विमल कुमार** IBBI/IPA-002/IP-N00995/2020-2021/13236 एएफए की वैधताः 31.12.2025 तक V1104, दि हाइड पार्क, सेक्टर 78, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 5. बोर्ड में यथा पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का पता तथा ईमेलः maidvimal1@rediff.com 6. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने मिवेन्ट रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेस एलएलपी (आईपीई) एस-376, पंचशील

पार्क. नर्ड दिल्ली-110017

ईमेलः pg.vipulgupta@outlook.com

सार्वजिनक सुचना

https://www.ibbi.gov.in/home/downloads एतदद्वारा सचित किया जाता है कि राष्टीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ कोर्ट-II ने विपल गप्ता, ग्रीनवर्ल्ड इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के पर्सनल गारंटर के विरुद्ध 23.8.2024 (आदेश की प्रति 3.9.2024 को प्राप्त हुई) को व्यक्तिगत दिवाला समाधान

25.9.2024

प्रक्रिया शरू करने का आदेश दिया है। ग्रीनवर्ल्ड इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के पर्सनल गारंटर श्री वपुल गुप्ता के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 6 में वर्णित पते पर प्रस्ताव कर्मी के पास 25.9.2024 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथअपने दावे जमा करें।

क्रेडीटर्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा डाक द्वारा प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण

प्रस्ताव कर्मी श्री विपुल गुप्ता (पर्सनल गारंटर) के मामले में IBBI/IPA-002/IP-00995/2020-2021/13236 मोबाईल नं. 7022034145 ईमेलः maidvimal1@rediffmail.com पताः मावेन्ट रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेस एलएलपी

एस-376, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017

KALPA COMMERCIAL LIMITED

CIN: L74899DL1985PLC022778 Regd. Off.: First Floor, 984 Pocket C, IFC Ghazipur Paper Market, East Delhi,

Delhi, India, 110096 Email: infokalpa2@gmail.com, Website: www.kalpacommercialltd.com NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE The Notice is hereby given that-

The 39th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, the 27th Day of September, 2024 at 09:00 A.M. at the registered office of the Company a First Floor, 984 Pocket C, IFC Ghazipur Paper Market, East Delhi, Delhi, India, 110096 to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting

Electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 have been sent to all the shareholders on or before September 4, 2024, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Manner of registering/updating email addresses:

Shareholders holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository The notice of the 39th AGM and Annual Report for financial year 2023-24 will also be made

available on the Company's website at www.kalpacommercialltd.com website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll, instead of him/her self and the proxy need not be a member. A person can act as proxy on behalf of members' up to and not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the company. Further, a member holding more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights may appre a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or member. The instrument appointing proxy must be deposited at the registered office of the

company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Corporate members are requested to send a duly certified copy of the board resolution, pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013, authorising their representative to

attend and vote on their behalf at the Meeting During the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting, members would be entitled to inspect the proxies lodged, at any time during the business hours of the Company, provided not less than 3 days written notice is given to the Company Members/Proxies/Authorised Representatives should bring the duly filled Attendance Slips

The remote e-voting period begins on 24th September, 2024 at (9:00 A.M IST) and ends on 26th September, 2024 (5:00 P.M IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members

Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. 20th September, 2024, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being 20th 10. The Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from

Saturday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM) Annual Report for the financial year 2023-24 including notice of 39th AGM along with Attendance Slips and Proxy Forms have been sent on Email IDs of those members whose E-

mail IDs are registered with the Depository Participant(s)/Company, unless a member has requested for a physical copy of the same. The Documents shall be sent through permitted mode to all members holding shares in physical mode. Documents referred to in the notice and the explanatory statement shall be kept open for

inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (Monday to Saturday) from 10.00 a.m. to 01.00 p.m. except holidays, upto the date of the

For and on behalf of the Board For Kalpa Commercial Limited Ishant Malhotra

Managing Director

**** Equinox** India

इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमें ट्स लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (CIN: L45101HR2006PLC095409)

पंजीकत कार्यालयः कार्यालय संख्या 01-1001, वीवर्क, ब्लू वन स्क्वायर, उद्योग विहार, फेज 4, रोड गुरुग्राम-122016 ई-मेलः secretarial@ibrealestate.com, दूरभाषः 0124- 4609559; वेबसाइटः www.equinoxindia.com

18वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए सार्वजनिक सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')**, उसके तहत बनाए गए नियमों और संशोधित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी लिस्टिंग विनियम') के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ('प्रासंगिक परिपत्र') द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स** रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("कंपनी") के सदस्यों की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें कारोबार करने के लिए एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम

की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एकल और समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज ('वार्षिक रिपोर्ट'), केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा नियत समय पर भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.equinoxindia.com और स्टॉक एक्सचेंज(स) यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः

Date: 04.09,2024

Place: Delhi

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा **('रिमोट ई-वोटिंग')** प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान ('ई-वोटिंग') उन सदस्यों को जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तत प्रक्रिया एजीएम की सचना के नोटस में दी गई है, जिसे उचित समय पर भेजा जाएगा और कंपनी, आरटीए और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सदस्यों के लिए रिमोट ई—वोटिंग और वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लिंक नीचे दिए गए है, जिनमें ऐसे सदस्य भी शामिल हैं जिनके पास भौतिक रूप में शेयर है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों और ई वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें:

वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक https://emeetings.kfintech.com/ रिमोट ई-वोटिंग के लिए लिंक व्यक्तिगत सदस्यों के लिएः

https://www.evoting.nsdl.com/ (एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखना)

https://www.cdslindia.com/ (सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभृतियों को रखना) गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिएः https://evoting.kfintech.com

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए क्रेडेंशियल सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कंपनी या डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट / प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी के जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी के साथ इसे पंजीकृत कर सकते हैं:

ंअ) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म ISR-1 (कंपनी और आरटीए की वेबसाइट www.equinoxindia.com/agm-notice और https://ris.kfintech.com/clientservices/ isc/isrforms.aspx पर उपलब्ध) को विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित करके सहायक दस्तावेजों के साथ केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500 032 पर जमा

करके अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें। ब) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि ये अपने ई—मेल पते को डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत /

अपडेट करें, जहां वे अपने डीमैट खाते रखते हैं। इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

हस्ताक्षर/-चंद्र शेखर जोशी कंपनी सचिव

www.readwhere.com